



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 वैशाख 1939 (श0)  
(सं0 पटना 418) पटना, वृहस्पतिवार, 18 मई 2017

---

सं० 4/ब2-10-66/2012-323 गृ0आ0  
बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13-01-2017

अनौपचारिक रूप

से परामर्शित द्वारा:- X वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप (स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस) कर्मियों के मासिक मानदेय में बढ़ोत्तरी यथा:- जूनियर कमिशनड ऑफिसर का मानदेय रु 18000 से 20700 (अठारह हजार से बीस हजार सात सौ) सैप जवानों का मानदेय रु 15000 से 17250 (पन्द्रह हजार से सत्रह हजार दो सौ पचास) एवं रसोईया का मानदेय रु 11400 से 13110 (ग्यारह हजार चार सौ से तेरह हजार एक सौ दस) रुपये मात्र के स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य में उग्रवादियों एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सिपाहियों को बिहार सरकार के संकल्प सं०- 3379 दिनांक 27.03.2006 द्वारा निम्नलिखित मानदेय एवं सुविधाओं के साथ अनुबंध पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया था।

- (I) प्रत्येक को 10,000/- (दस हजार) रुपये प्रतिमाह अनुबंध राशि.
- (II) वर्दी एवं जूता आदि हेतु 2600/- (दो हजार छः सौ) रुपये एकमुश्त राशि.
- (III) कर्तव्य के क्रम में यात्रा एवं दैनिक ठहराव भत्ता, जो बिहार पुलिसकर्मियों को देय है,

(IV) कर्तव्य पर मारे जाने पर प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के आश्रित को 10,00,000/— (दस लाख) रुपये अनुग्रह अनुदान.

(V) कर्तव्य पर नियुक्त प्रत्येक सैनिक को एक वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश.

(2). विभागीय संकल्प सं०— 3437 दिनांक 27.04.2010 द्वारा सैप जवान के मानदेय में वृद्धि करते हुये उसे रू० 12000 (बारह हजार) प्रतिमाह किया गया तथा सैप जवानों के साथ-साथ सैप के रसोईया को रू० 8400 (आठ हजार चार सौ) एवं जूनियर कमिशनड् ऑफिसर को रू० 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतान के आधार पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी।

(3). पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०— 648 दिनांक 27.01.2014 द्वारा सैप बल के सभी स्तरों पर मासिक मानदेय रू० 3000/— (तीन हजार) रुपये की वृद्धि की गई। फलस्वरूप सैप जवान का मानदेय 12000/— (बारह हजार) से बढ़ाकर 15000/— (पन्द्रह हजार) रुपये, रसोईया का मानदेय 8400/— (आठ हजार चार सौ) रुपये, से बढ़ाकर 11400/— (ग्यारह हजार चार सौ) रुपये एवं जूनियर कमिशनड् ऑफिसर का मानदेय 15000/— (पन्द्रह हजार) रुपये से बढ़ाकर 18000/— (अठारह हजार) रुपये मात्र प्रतिमाह करते हुए नियोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी।

(4) वर्तमान समय में मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सैप बल के सभी स्तरों पर मासिक मानदेय में 15% (पन्द्रह प्रतिशत) की दर से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। उक्त दर से वृद्धि के फलस्वरूप जूनियर कमिशनड् ऑफिसर का मानदेय 18000/— (अठारह हजार) से बढ़ाकर 20700/— (बीस हजार सात सौ) रुपये, सैप जवान का मानदेय 15000/— (पन्द्रह हजार) से बढ़ाकर 17250/— (सत्रह हजार दो सौ पचास) रुपये एवं रसोईया का मानदेय 11400/— (ग्यारह हजार चार सौ) से बढ़ाकर 13110/— (तेरह हजार एक सौ दस) रुपये मात्र प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(5) उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सैप बल के वेतन मद में वर्तमान में उपलब्ध कुल सैप बल— 6173, (जे०सी०ओ०— 66, सैप जवान— 6017 एवं सैप रसोईया— 90) हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय 16,64,44,200/— (सोलह करोड़ चौंसठ लाख चौवालीस हजार दो सौ) रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार होगा। (व्यय विवरणी संलग्न)

विश्वासभाजन,  
गिरीश मोहन ठाकुर,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 418-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>